



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 45] नई दिल्ली, नवम्बर 22-नवम्बर 28, 2009, शनिवार/अग्रहायण 1-अग्रहायण 7, 1931
No. 45] NEW DELHI, NOVEMBER 22—NOVEMBER 28, 2009, SATURDAY/AGRAHAYANA 1—AGRAHAYANA 7, 1931

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2009

सा.का.नि. 166.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, कार्यक्रम सहायक भर्ती नियम, 2000 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय में कार्यक्रम सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, कार्यक्रम सहायक समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2009 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
कार्यक्रम सहायक	1* (2009) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' (अराजपत्रित)	पी.बी. 1 5200- 20,200 रु. + (ग्रेड वेतन) 2800 रु.	लागू नहीं होता	नहीं	18 से 27 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है।) टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर,

(7)

नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगों उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
--	--	-------------------------------

(8)

(9)

(10)

आवश्यक :

लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

(1) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी या गणित (सांख्यिकी के साथ) या अर्थशास्त्र (सांख्यिकी के साथ) (आनर्स) या सक्रिया अनुसंधान में बैचलर डिग्री या समतुल्य।

(2) कंप्यूटर कार्यक्रमण और कंप्यूटर प्रचालन का ज्ञान।

वांछनीय :

कार्यक्रमण भाषाओं जैसे बिगिनर्स आल पर्पज सिम्बोलिक इंस्ट्रक्शन पाठ्यक्रम और फार्मूला अनुवाद और शब्द प्रसंस्करण, डीबेस, इलेक्ट्रॉनिकी स्प्रेडशीट का ज्ञान।

टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी

(8)

प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा/प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(11)

प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा

(12)

प्रतिनियुक्ति :

केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी, जो मूल विभाग या संगठन में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

जिन्होंने मूल विभाग या संगठन में वेतन बैंड-1, 5200-20,200 रु. धन ग्रेड वेतन 2400 रु. के वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अनुसूची के स्तंभ 8 में विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

टिप्पण 1 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।

(13)

समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए), जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

(14)

लागू नहीं होता।

(1) उप सचिव (प्रशासन)

—अध्यक्ष

(2) अवर सचिव (प्रशासन),

—सदस्य

[फा. सं. 9/5/2009-प्रशा.]

एन. के. गुप्ता, अवर सचिव

MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 23rd November, 2009

G.S.R. 166.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Ministry of Water Resources Programme Assistant Recruitment Rules, 2000, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Programme Assistant in the Ministry of Water Resources, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources Programme Assistant Group 'C' Post Recruitment Rules, 2009.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No. Person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of post	Classification	Pay Band and Grade Pay/Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(4)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Programme Assistant	01* (2009) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Services, Group 'C', (Non-Gazetted)	Pay Band-I Rs. 5200-20,200+ Rs. 2800 Grade Pay	Not applicable	No	18 to 27 years (Relaxable for Government servants upto 40 in the case of General candidates and up to 45 years in case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by of the Central Government from time to time.) Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi sub division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadeep).

4147 GI/09-2

(7)

Note 2 : In case of appointment through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the date by which the Employment Exchange(s) is/are asked to send the nominations.

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(8)	(9)	(10)

Essential :

- (1) Bachelors degree in Statistics or Mathematics (with Statistics) Economic (with Statistics) (Hons) or Operations Research from a recognised University or equivalent; and
(2) knowledge of computer programming and Computer Operation.

Not applicable

Two years for direct recruitment

Desirable :

Knowledge of programming languages-Beginners
All purpose Symbolic Instruction Course and
Formula Translation and Word processing, Dbase,
Electronics, Spread Sheet.

Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.

Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from those communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill them.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods

In case of recruitment by promotion/deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption is to be made

(11)

(12)

By deputation/absorption failing which by direct recruitment

Deputation : (Officers under the Central Government holding analogous post on regular basis in the present department or organisation; or with five years regular service in post in Pay Band 1, Rs. 5200-20,200 plus grade pay of Rs. 2400 in the parent department or organization and possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8 of the Schedule.

(12)

Note 1 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other department of the Central Government, shall ordinarily not exceed 3 years.

Note 2 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be, not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists,
what is its composition

Circumstances in which Union Public Service
Commission is to be consulted in making
recruitment

(13)

(14)

Group 'C' Departmental Promotion Committee
(For considering confirmation.) consisting of :—

Not applicable

1. Deputy Secretary (Administration) —Chairman
2. Under Secretary (Administration) —Member

[F.No. 9/5/2009-Admn.]
N. K. GUPTA, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(कृषि एवं सहकारिता विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2009

सा.का.नि. 167.—भारत के राजपत्र में तारीख 13 जून, 2009 को सा.का.नि. सं. 90 के तहत प्रकाशित तारीख 8 जून, 2009 की समसंख्यक अधिसूचना की अनुसूची में बायें तरफ के कालम में उल्लिखित निम्नलिखित गलतियों को सही किया जाये और उन्हें दायीं तरफ के कालम के अनुसार पढ़ा जाये जैसा कि नीचे दिया गया है :—

निम्न के बजाय	निम्नानुसार पढ़ा जाए
प्रयोगशाला परिचारक	
पदों की संख्या	पदों की संख्या
कालम (2)	कालम 2
1*(2009)	2*(2009)
*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

[सं. 20011/5/2008-एसडी-II]

डी. प्रवीण, अवर सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Cooperation)
CORRIGENDUM

New Delhi, the 20th November, 2009

G.S.R. 167.—In the schedule to the Notification of even number dated 8th June, 2009, published under G.S.R. No. 90 in the Gazette of India dated 13th June, 2009, the following error mentioned in the left side column may be corrected and read as in the right side column as under :—

Instead of	May be read as
Laboratory Attendant	
No. of posts Column (2)	No. of posts Column (2)
1*(2009)	2*(2009)
*Subject to variation dependent upon workload	*Subject to variation dependent upon workload

[No. 20011/5/2008-SD-II]

D. PRAVEEN, Under Secy.

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 23 नवम्बर, 2009

सा.का.नि. 168.—भारत के राजपत्र में तारीख 8 दिसम्बर, 2007 को सा.का.नि. सं. 270 के तहत प्रकाशित तारीख 3 दिसम्बर, 2007 की समसंख्यक अधिसूचना की अनुसूची में बायें तरफ के कालम में उल्लिखित निम्नलिखित गलतियों को ठीक किया जाये और उन्हें दायीं तरफ के कालम के अनुसार पढ़ा जाये जैसा कि नीचे दिया गया है :—

इसके स्थान पर	यह पढ़ा जाये
(1)	(2)
1. मुख्य बीज विश्लेषक	
सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन), नियम, 1972 के नियम 30 के तहत लागू सेवा में जोड़े गये वर्षों का लाभ मिलेगा
कालम (6)	कालम (6)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन), नियम, 1972 के नियम 30 के तहत लागू सेवा में जोड़े गये वर्षों का लाभ मिलेगा	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा
कालम (7)	कालम (7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
2. बीज प्रौद्योगिकीविद्	
सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन), नियम, 1972 के नियम 30 के तहत लागू सेवा में जोड़े गये वर्षों का लाभ मिलेगा
कालम (6)	कालम (6)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन), नियम, 1972 के नियम 30 के तहत लागू सेवा में जोड़े गये वर्षों का लाभ मिलेगा	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा
कालम (7)	कालम (7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(1)

(2)

3. ज्येष्ठ बीज विश्लेषक

सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा

कालम (6)

लागू नहीं होता

क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन), नियम, 1972 के नियम 30 के तहत लागू सेवा में जोड़े गये वर्षों का लाभ मिलेगा

कालम (7)

लागू नहीं होता

4. कनिष्ठ बीज विश्लेषक

सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा

कालम (6)

लागू नहीं होता

क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन), नियम, 1972 के नियम 30 के तहत लागू सेवा में जोड़े गये वर्षों का लाभ मिलेगा

कालम (7)

30 वर्ष से अनधिक

(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, लागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

5. बीज प्रसंस्करण इंजीनियर

वर्गीकरण

कालम (3)

सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' अराजपत्रित, अननुसचिवीय

सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा

कालम (6)

लागू नहीं होता

क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन), नियम, 1972 के नियम 30 के तहत लागू सेवा में जोड़े गये वर्षों का लाभ मिलेगा

कालम (6)

लागू नहीं होता

सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा

कालम (7)

लागू नहीं होता

क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन), नियम, 1972 के नियम 30 के तहत लागू सेवा में जोड़े गये वर्षों का लाभ मिलेगा

कालम (6)

लागू नहीं होता

सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा

कालम (7)

30 वर्ष से अनधिक

(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

वर्गीकरण

कालम (3)

सामान्य केन्द्रीय सेवा समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय

क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन), नियम, 1972 के नियम 30 के तहत लागू सेवा में जोड़े गये वर्षों का लाभ मिलेगा

कालम (6)

लागू नहीं होता

(1)	(2)
<p>क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत लागू सेवा में जोड़े गये वर्षों का लाभ मिलेगा</p>	<p>सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा</p>
कालम (7)	कालम (7)
40 वर्ष से अनधिक	40 वर्ष से अनधिक
<p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p>	<p>(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)</p>
<p>टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)</p>	<p>टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अन्तिम तारीख होगी (न कि वह अन्तिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खण्ड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखण्ड, अण्डमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)</p>
6. प्रशासन लेखा अधिकारी	
सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	<p>क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत लागू सेवा में जोड़े गये वर्षों का लाभ मिलेगा</p>
कालम (6)	कालम (6)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
<p>क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत लागू सेवा में जोड़े गये वर्षों का लाभ मिलेगा</p>	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा
कालम (7)	कालम (7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
7. निजी सचिव	
सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा	<p>क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत लागू सेवा में जोड़े गये वर्षों का लाभ मिलेगा</p>
कालम (6)	कालम (6)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता
<p>क्या केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के तहत लागू सेवा में जोड़े गये वर्षों का लाभ मिलेगा</p>	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा
कालम (7)	कालम (7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

CORRIGENDUM

New Delhi, the 23rd November, 2009

G.S.R. 168.—In the schedule to the Notification of even number dated 3rd December, 2007, published under G.S.R. No. 270 in the Gazette of India dated 8th December, 2007, the following errors mentioned in the left side column may be corrected and read as in the right side column as under :—

Instead of	May be read as
(1)	(2)
1. Chief Seed Analyst	
Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
Column (6)	Column (6)
Not applicable	Not applicable
Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
Column (7)	Column (7)
Not applicable	Not applicable
2. Seed Technologist	
Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
Column (6)	Column (6)
Not applicable	Not applicable
Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
Column (7)	Column (7)
Not applicable	Not applicable
3. Senior Seed Analyst	
Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
Column (6)	Column (6)
Not applicable	Not applicable
Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
Column (7)	Column (7)
Not applicable	Not applicable
4. Junior Seed Analyst	
Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972
Column (6)	Column (6)
Not applicable	Not applicable
Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
Column (7)	Column (7)
Not exceeding 30 years	Not exceeding 30 years
(relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.	(relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

(1)	(2)
<p>Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Mainipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).</p>	<p>Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Mainipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep):</p>
<p>5. Seed Processing Engineer</p>	
<p>Classification</p>	<p>Classification</p>
<p>Column (3)</p>	<p>Column (3)</p>
<p>General Central Service, Group- 'A' Non-Gazetted, Non-Ministerial.</p>	<p>General Central Service, Group- 'A' Gazetted, Non-Ministerial.</p>
<p>Age limit for direct recruits</p>	<p>Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972</p>
<p>Column (6)</p>	<p>Column (6)</p>
<p>Not applicable</p>	<p>Not applicable</p>
<p>Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972</p>	<p>Age limit for direct recruits</p>
<p>Column (7)</p>	<p>Column (7)</p>
<p>Not exceeding 40 years.</p>	<p>Not exceeding 40 years.</p>
<p>(relaxable for Government servants up to five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.</p>	<p>(relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.</p>
<p>Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Mainipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).</p>	<p>Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Mainipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangti Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshdweep).</p>
<p>6. Administration Accounts Officer</p>	
<p>Age limit for direct recruits</p>	<p>Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972</p>
<p>Column (6)</p>	<p>Column (6)</p>
<p>Not applicable</p>	<p>Not applicable</p>
<p>Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972</p>	<p>Age limit for direct recruits</p>
<p>Column (7)</p>	<p>Column (7)</p>
<p>Not applicable</p>	<p>Not applicable</p>
<p>7. Private Secretary</p>	
<p>Age limit for direct recruits</p>	<p>Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972</p>
<p>Column (6)</p>	<p>Column (6)</p>
<p>Not applicable</p>	<p>Not applicable</p>

(1)	(2)
Whether benefit of added years of Service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
Column (7)	Column (7)
Not applicable	Not applicable

[No. 20011/2/2006-SD-II]
D. PRAVEEN, Under Secy.

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 25 नवम्बर, 2009

सा.का.नि. 169.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म (कृषि क्षेत्रिक) भर्ती नियम, 2008 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म (कृषि क्षेत्रिक) भर्ती (संशोधन) नियम, 2009 है ।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
2. केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म (कृषि क्षेत्रिक) भर्ती नियम, 2008 की अनुसूची के स्तंभ संख्या 4 में,—
 - (i) वेतनमान शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—
वेतनबैंड और ग्रेड वेतन/वेतनमान,
 - (ii) 4000-100-6000 रु. प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—
वेतनबैंड-1, रु. 5200-20200, ग्रेड वेतन रु. 2400 ।

[फा. सं. 39-67/2009-प्रशा. III]

आर. एस. जयाल, अवर सचिव

पाद टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 172(अ), तारीख 21 फरवरी, 2008 द्वारा प्रकाशित किए गए थे ।

(Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries)

New Delhi, the 25th November, 2009

G.S.R. 169.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Central Cattle Breeding Farms (Agricultural Field Man) Recruitment Rules, 2008, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Cattle Breeding Farms (Agricultural Field Man) Recruitment (Amendment) Rules, 2009.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Cattle Breeding Farms (Agricultural Field Man) Recruitment Rules, 2008, in the Schedule, in column number 4,—
 - (i) for the heading 'Scale of Pay' the following shall be substituted, namely,—
'Pay Band and Grade Pay/Pay Scale',
 - (ii) for the entry, 'Rs. 4000-100-6000', the following entry shall be substituted, namely,—
'PB-1 Rs. 5200-20200 Grade Pay Rs. 2400'.

[F. No. 39-67/2009-A. III]

R. S. JAYAL, Under Secy.

Foot Note :—The principal rules were published in the Gazette of India vide No. G.S. R. No. 172(E), dated 21-2-2008.

4147 GZ/09-4